



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1382/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(162)-2020

लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-441

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1245/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(155)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में,-

हिन्दी पाठ में -

(क) परंतुक के सातवीं पंक्ति में, अंक "30" के स्थान पर अंक "31" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।